

कार्यालय आदर्श नगर पंचायत किशनपुर - फतेहपुर

संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती/ नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/ व्यवहारिक परीक्षा सम्बंधित सूचना

संख्या

/न.पं.किशनपुर/वर्ष 2016-17

दिनांक 26-12-2016

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या- 2021/ 9-1-2016-185सा./ 10संटी. दिनांक 04.07.2016 एवं कार्यालय जिलाधिकारी फतेहपुर के पत्र संख्या 60/21- स्था.निकाय/2016-17 दिनांक 09.08.2016 द्वारा गठित चयन समिति के क्रम में नगर पंचायत किशनपुर जनपद फतेहपुर में रिक्त संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती/ नियुक्ति हेतु नगर पंचायत किशनपुर के लिए आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार/ व्यावहारिक परीक्षा संपन्न की जाएगी। प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची/ विवरण जनपद फतेहपुर की वेबसाइट ://... पर अपलोड करने के साथ ही कार्यालय नगर पंचायत किशनपुर के नोटिस बोर्ड पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की सूची चर्चा कर दी गयी है। जनपद फतेहपुर की वेबसाइट ://... एवं कार्यालय नगर पंचायत किशनपुर के नोटिस बोर्ड पर चर्चा सूची के अनुसार निर्धारित तिथि व समय पर कार्यालय नगर पंचायत किशनपुर में साक्षात्कार/ व्यवहारिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थी उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

साक्षात्कार/ व्यवहारिक परीक्षा हेतु कार्यक्रम

क्रमांक	अनुक्रमांक	साक्षात्कार दिनांक	साक्षात्कार समय	साक्षात्कार स्थान
1	1 से 200 तक	02 जनवरी 2017	पूर्वाह्न 11 बजे से	कार्यालय नगर पंचायत किशनपुर, फतेहपुर
2	201 से 400 तक	07 जनवरी 2017		
3	401 से 600 तक	11 जनवरी 2017		
4	601 से अन्त तक	13 जनवरी 2017		
5	समस्त छूटे अभ्यर्थी	17 जनवरी 2017		

साक्षात्कार/ व्यावहारिक परीक्षा हेतु अन्य महत्वपूर्ण सूचनार्ये :-

1. अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपने साथ सफाई से जुड़े उपकरण (झाड़ू, फावड़ा, तसला आदि) स्वयं लेकर उपस्थित होंगे।

2. अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय शैक्षिक प्रमाण - पत्र, जन्म तिथि प्रमाण - पत्र, निवास प्रमाण - पत्र, अनुभव प्रमाण - पत्र आदि की मूल प्रतियाँ एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ साथ लेकर उपस्थित हों |
3. छूटे हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, अभ्यर्थियों द्वारा छूटने/ अनुपस्थित रहने का वाजिब स्पष्टकरण प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 17.01.2017 को संपन्न किया जायेगा |
4. अपरिहार्य कारणवश साक्षात्कार/ व्यावहारिक परीक्षा की किस तिथि/ तिथियों में परिवर्तन किये जाने पर समाचार पत्र के माध्यम से व कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कर अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जायेगा |
5. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम- 1994 (यथा संशोधित) के अंतर्गत लाभ देने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण - पत्र की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति साथ लेकर उपस्थित हों |
6. सफाई कर्मियों की संविदा पर भर्ती किये जाने के पूर्व समिति द्वारा भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची शासन को प्रेषित की जायेगी | शासन के अनुमोदनोपरान्त अभ्यर्थियों को अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत किशनपुर, फतेहपुर, जो इनके नियुक्ति प्राधिकारी हैं, सफाई कर्मियों के संविदा पर रखे जाने सम्बन्ध में नियुक्ति आदेश जारी करेंगे |

सदस्य चयन समिति/ अधिशाषी अधिकारी
उपजिलाधिकारी

नगर पंचायत किशनपुर फतेहपुर

अध्यक्ष चयन समिति/

खागा, फतेहपुर